

Topic: Puzzles

Time: 10min

Paper-Maker Monika Awasthi

Directions (1-5): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिये और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये.

आठ डिब्बे एक के ऊपर एक के क्रम में रखे गए हैं. प्रत्येक डिब्बे को विभिन्न रंग के साथ पेंट किया गया है—सफ़ेद, नीला, हरा और भूरा. कम से कम एक लेकिन तीन से अधिक डिब्बे समान रंग से पेंट नहीं किये गए हैं. H और B के मध्य केवल दो डिब्बे रखे गए हैं, दोनों डिब्बे समान रंग के हैं. A और G के मध्य चार से अधिक डिब्बे रखे गये हैं, G जो भूरे रंग का है. H को नीले रंग के डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया है. डिब्बा E, डिब्बे A के ठीक नीचे है और उस पर नीला रंग किया गया है. D और C के मध्य तीन डिब्बे रखे हैं, C जो हरे रंग का है. डिब्बा H सफ़ेद, नीले और भूरे रंग से पेंट नहीं किया गया है. डिब्बा D, डिब्बे C के ऊपर लेकिन डिब्बे H के नीचे है. डिब्बा F, A के समान रंग का है लेकिन नीले और भूरे का नहीं है.

Q1. D और G के मध्य कितने डिब्बे रखे गए हैं?

- (a) तीन
- (b) चार
- (c) एक
- (d) दो
- (e) कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsbox based puzzle

Q2. डिब्बे A का रंग क्या है?

- (a) नीला
- (b) सफ़ेद
- (c) भूरा
- (d) हरा
- (e) निर्धारित नहीं किया जा सकता

L1Difficulty 1

QTagsbox based puzzle

Q3. निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बा, डिब्बे C के ठीक ऊपर रखा गया है?

- (a) A
- (b) F
- (c) G
- (d) H
- (e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsbox based puzzle

Q4. डिब्बे E के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

- (a) डिब्बा E हरे रंग का है
- (b) डिब्बे E के ऊपर केवल दो डिब्बे रखे गये हैं
- (c) डिब्बे E का रंग डिब्बे F के समान है
- (d) E और G के मध्य तीन से अधिक डिब्बे रखे गए हैं
- (e) कोई सत्य नहीं है

L1Difficulty 1

QTagsbox based puzzle

Q5. निम्नलिखित में से कौन-सा डिब्बा हरे रंग का है?

- (a) A
- (b) H
- (c) F
- (d) B
- (e) Both (b) and (d)

L1Difficulty 1

QTagsbox based puzzle

Directions (6-10): दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

एक पंक्ति में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठी है। P और S के मध्य केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। Q, U के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। W पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के तीसरे स्थान पर बैठा है। S और T के मध्य केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, S के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। U, T का निकटतम पड़ोसी है। पंक्ति में 14 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। P के बाएं स्थान पर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। W, U के ठीक दाएं स्थान पर बैठा है।

Q6. पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- (a) 20
- (b) 16

(c) 17

(d) 15

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsLinear seating arrangement

Q7. निम्न में से P के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

(a) U

(b) T

(c) Q

(d) R

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsLinear seating arrangement

Q8. Q और W के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(a) चार

(b) दो

(c) एक

(d) तीन

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsLinear seating arrangement

Q9. निम्न में से R और Q के ठीक मध्य कौन बैठा है?

(a) U

(b) T

(c) Q

(d) W

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsLinear seating arrangement

Q10. S के सन्दर्भ में U किस स्थान पर है?

(a) बाएं से चौथा

(b) दाएं से पाँचवा

(c) बाएं से दूसरा

(d) ठीक दाएं

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsLinear seating arrangement

Directions (11-15): निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए.

सात व्यक्ति M, N, O, W, X, Y और Z समान सप्ताह के विभिन्न दिनों में विभिन्न कक्षाओं एक्टिंग, सिंगिंग और क्राफ्टिंग के लिए जाते हैं. प्रत्येक कक्षा में कम से कम दो व्यक्ति जाते हैं. उनमें से प्रत्येक को विभिन्न खाद्य पदार्थ अर्थात् चावल, चॉकलेट, दूध, कैंडी, संतरा, ओट्स और केला पसंद है. X, M के साथ सिंगिंग की कक्षा के लिए जाता है. M को केला पसंद है. वे जो एक्टिंग की कक्षा के लिए जाते हैं उन्हें चावल और कैंडी पसंद नहीं है. वह व्यक्ति जिसे चॉकलेट पसंद है वह केवल O के साथ क्राफ्टिंग कक्षा के लिए जाता है. वह व्यक्ति जिसे संतरा पसंद है, वह M और O के साथ समान कक्षा में नहीं जाता है. W सिंगिंग कक्षा के लिए नहीं जाता है. W को ओट्स पसंद है. Z और N समान कक्षा में जाते हैं. N को दूध पसंद नहीं है. वह व्यक्ति जिसे कैंडी पसंद है वह सिंगिंग के लिए नहीं जाता है.

Q11. X को निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पसंद है?

(a) ओट्स

(b) चावल

(c) दूध

(d) संतरा

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsPuzzle

Q12. W निम्नलिखित में कौन सी कक्षा में जाता है?

(a) सिंगिंग

(b) क्राफ्टिंग

(c) एक्टिंग

(d) या तो (a) या (b)

(e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsPuzzle

Q13. N को निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पसंद है?

- (a) संतरा
- (b) ओट्स
- (c) कैंडी
- (d) केला
- (e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsPuzzle

Q14. निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन सत्य है?

- (a) N- संतरा-क्राफिटिंग
- (b) W-चावल- क्राफिटिंग
- (c) X-चावल- एक्टिंग
- (d) Y-दूध- एक्टिंग
- (e) कोई सत्य नहीं है

L1Difficulty 1

QTagsPuzzle

Q15. Z को निम्नलिखित में से कौन-सा खाद्य पदार्थ पसंद है?

- (a) संतरा
- (b) केला
- (c) दूध
- (d) कैंडी
- (e) इनमें से कोई नहीं

L1Difficulty 1

QTagsPuzzle

Solutions

Solution (1-5):

Sol.

Boxes	Colour
A	White
E	Blue
H	Green
D	Blue

F	White
B	Green
G	Brown
C	Green

S1. Ans.(d)

S2. Ans.(b)


S3. Ans.(c)

S4. Ans.(d)

S5. Ans.(e)

Solution (6-10):

Sol.



S6. Ans.(b)

S7. Ans.(d)

S8. Ans.(d)

S9. Ans.(e)

S10. Ans.(b)

Solutions(11-15):

Sol.

Person	Food item	Class
M	Banana	Singing
N	Orange	Acting
O	Candy	Crafting
W	Oats	Acting
X	Rice	Singing
Y	Chocolate	Crafting
Z	Milk	Acting

S11. Ans(b)

S12. Ans(c)

S13. Ans(a)

S14. Ans(e)

S15. Ans(c)